



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

दुष्कर्म जैसे अपराध में संलिप्त 02 अभियुक्तों पर रा.सु.का
(N.S.A.) की कार्यवाही

दिनांक 06.09.22

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चंद्रभान के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इस क्रम में थाना तालगांव पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले दो अभियुक्तों 1. इम्तियाज पुत्र उस्मान गनी 2. गुफरान पुत्र मुजम्मिल नि०गण नयागांव नेवादा थाना तालगांव जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना तालगांव पुलिस द्वारा दिनांक 22.04.22 को दुष्कर्म की घटना के सम्बन्ध में थाना तालगांव पर अभियोग पंजीकृत कर शीघ्र कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1. इम्तियाज पुत्र उस्मान गनी 2. गुफरान पुत्र मुजम्मिल नि०गण नयागांव नेवादा थाना तालगांव जनपद सीतापुर को दिनांक 23.04.22 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्तों के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 22.05.22 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण वर्तमान में जिला कारागार सीतापुर में बंद है। अभियुक्तगण जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत थे। N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्तों को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरुद्ध किये जाने हेतु निरुद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण एवम् अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियुक्त 1. इम्तियाज पुत्र उस्मान गनी 2. गुफरान पुत्र मुजम्मिल नि० गण नयागांव नेवादा थाना तालगांव जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. इम्तियाज पुत्र उस्मान गनी नि० नयागांव नेवादा थाना तालगांव जनपद सीतापुर
2. गुफरान पुत्र मुजम्मिल नि० नयागांव नेवादा थाना तालगांव जनपद सीतापुर